

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 366]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 20 अगस्त 2014—श्रावण 29, शक 1936

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग
निर्वाचन भवन
58, अरेरा हिल्स, भोपाल (म. प्र.)—462 011

आदेश

भोपाल, दिनांक 19 अगस्त 2014

क्र. एफ-57-01-2014-तीन-नपा.-804.—मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 11-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में, आयोग की अधिसूचना दिनांक 3 जुलाई, 2014 जिसका प्रकाशन "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" क्रमांक 265 में दिनांक 3 जुलाई, 2014 को हुआ है, के भाग-1 महापौर/अध्यक्ष के लिए विहित मुक्त निर्वाचन प्रतीक की सूची में क्रमांक 30 में अंकित प्रतीक "हस्तचलित पम्प" एवं क्रमांक 40 में अंकित प्रतीक "जग" तथा भाग-2 पार्षद के लिए विहित मुक्त निर्वाचन प्रतीक की सूची में क्रमांक 33 में अंकित प्रतीक "फसल काटता हुआ किसान" को एतद्वारा विलोपित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,
हस्ता./-

(जी. पी. श्रीवास्तव)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

दूरभाष क्रमांक 0755—2555527